



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 563 राँची, शुक्रवार,

12 जुलाई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

25 मार्च, 2019

आदेश संख्या-5/आरोप-1-147/2017 का०- 2503-- श्री अरूण उराँव, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला- राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, बोकारो, सम्प्रति-निलंबित को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक- 19.09.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय आदेश सं०- 10456, दिनांक 09.10.2017 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 19.09.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है।

2. श्री उराँव द्वारा दिनांक 30.11.2017 को हिरासत से मुक्त होने के बाद दिनांक- 01.12.2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया है, जिसके आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 9(3)(i) के तहत श्री उराँव का योगदान स्वीकृत करते हुए उक्त नियमावली के नियम- 9(3)(ii) के आलोक में 9(1)(क) के तहत योगदान की तिथि 01.12.2017 से विभागीय अधिसूचना सं०-148(HRMS), दिनांक 15.02.2018 द्वारा अगले

आदेश तक पुनः निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया गया।

3. अतः मामले के समीक्षोपरांत, निम्नांकित निर्णय लिया जाता है -

(क) श्री उराँव को निलम्बन से मुक्त किया जाता है।

(ख) श्री उराँव के निलम्बन अवधि का विनियमन इनके विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं०-26/17, दिनांक 18.09.2017 में पारित न्यायादेश के आलोक में किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
